

डेली करेंट अफेयर्स क्विज - 26 अक्टूबर 2022

प्रश्न -1

एशिया के सबसे बड़े कम्प्रेस्ड बायो गैस (CBG) संयंत्र का उद्घाटन किस शहर में किया गया?

- A) जयपुर, राजस्थान
- B) संगरूर, पंजाब
- C) पुणे, महाराष्ट्र
- D) मेरठ, उत्तर प्रदेश

सही उत्तर: B

केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने पंजाब के संगरूर के लेहरागागा में एशिया के सबसे बड़े कम्प्रेस्ड बायो गैस (CBG) संयंत्र का उद्घाटन किया।

प्रश्न -2

हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स के निर्माण के लिए किस संगठन ने ट्राइटन इलेक्ट्रिक व्हीकल (TEV) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं?

- A) टाटा मोटर्स लिमिटेड
- B) ओला इलेक्ट्रिक लिमिटेड
- C) भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड
- D) भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड

सही उत्तर: D

भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स के निर्माण के लिए अमेरिका स्थित ट्राइटन इलेक्ट्रिक व्हीकल के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

प्रश्न -3

मर्सर CFA इंस्टीट्यूट ग्लोबल पेंशन इंडेक्स (MCGPI) 2022 में भारत का रैंक क्या है?

- A) 41
- B) 42
- C) 40
- D) 39

डेली करेंट अफेयर्स क्विज - 26 अक्टूबर 2022

सही उत्तर: A

2022 मर्सर CFA इंस्टीट्यूट ग्लोबल पेंशन इंडेक्स (MCGPI) सर्वेक्षण ने विश्लेषण किए गए 44 पेंशन आय प्रणालियों में से भारत को 41वें स्थान पर रखा।

प्रश्न -4

रेल कनेक्ट मोबाइल ऐप पर 'ट्रैवल नाउ पे लेटर (TNPL)' सुविधा प्रदान करने के लिए किस कंपनी ने IRCTC के साथ भागीदारी की है?

- A) CASHe
- B) कॉपर
- C) रिफाइन
- D) पेटीएम

सही उत्तर: A

CASHe ने घोषणा की है कि उसने अपने ट्रैवल ऐप, IRCTC रेल कनेक्ट पर 'ट्रैवल नाउ पे लेटर' (TNPL) भुगतान विकल्प प्रदान करने के लिए भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम (IRCTC) के साथ भागीदारी की है।

प्रश्न -5

भारत का पहला 5G स्टैंडअलोन नेटवर्क बनाने के लिए किस कंपनी ने नोकिया और एरिक्सन के साथ एक बहु-वर्षीय अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं?

- A) अदानी डेटा नेटवर्क
- B) भारती एयरटेल लिमिटेड
- C) रिलायंस जियो
- D) वोडाफोन आइडिया लिमिटेड

सही उत्तर: C

यूरोपीय टेलीकॉम गियर निर्माता एरिक्सन और नोकिया ने मेगा 5G नेटवर्क बनाने के लिए भारत के सबसे बड़े टेलीकॉम ऑपरेटर रिलायंस जियो से अनुबंध हासिल करने की घोषणा की है।

डेली करंट अफेयर्स क्विज - 26 अक्टूबर 2022

प्रश्न -6

निम्नलिखित में से किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नया अध्यक्ष चुना गया?

- A) सीताराम केसरी
- B) शशि थरूर
- C) मल्लिकार्जुन खड़गे
- D) अविनाश पांडेय

सही उत्तर: C

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्व मंत्री मल्लिकार्जुन खड़गे को अपना अध्यक्ष चुना है।

प्रश्न -7

मर्सर CFA इंस्टीट्यूट ग्लोबल पेंशन इंडेक्स (MCGPI) में, 44 देशों में से किस देश ने शीर्ष रैंक हासिल किया?

- A) डेनमार्क
- B) भारत
- C) आइसलैंड
- D) नॉर्वे

सही उत्तर: C

मर्सर CFA इंस्टीट्यूट ग्लोबल पेंशन इंडेक्स (MCGPI) 2022 के अनुसार, आइसलैंड सूची में सबसे ऊपर है, इसके बाद नीदरलैंड है, जबकि थाईलैंड अंतिम स्थान पर है।

डेली करेंट अफेयर्स क्विज - 26 अक्टूबर 2022

प्रश्न -8

ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत _____ स्थान पर है।

- A) 102
- B) 103
- C) 107
- D) 110

सही उत्तर: C

ग्लोबल हंगर इंडेक्स (GHI) 2022 में भारत 121 देशों में से 107वें स्थान पर था।

प्रश्न -9

निम्नलिखित में से किसे भारत के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था?

- A) अभिनव चंद्रचूड़
- B) डी.वाई. चंद्रचूड़
- C) एन.वी. रमण
- D) उदय ललित

सही उत्तर: B

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने न्यायमूर्ति धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ को भारत का 50वां मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है।

डेली करेंट अफेयर्स क्विज - 26 अक्टूबर 2022

प्रश्न -10

निम्नलिखित में से किस संस्थान ने लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2022 जारी की है?

- A) वर्ल्ड वाइड फंड
- B) UNESCO
- C) UNEP
- D) FAO

सही उत्तर: A

वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर ने लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2022 जारी की है।